

Ref: ISD/21-22/162

July 29, 2021

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code 532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
---	--

Madam/Sir,

Subject: Press Release on the Financial Results of the Bank for the Quarter ended on June 30, 2021


We enclose herewith a copy of Press Release issued by the Bank on Reviewed Unaudited Financial Results of the Bank for the Quarter ended on June 30, 2021.

The same is also made available on the Bank's website under the following link - <http://www.unionbankofindia.co.in/english/financial-result.aspx>

The above is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully,



(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Encl: As above.

प्रेस विज्ञप्ति

30 जून, 2021 की समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मण्डल ने 30 जून, 2021 की समाप्त तिमाही के लिए बैंक के लेखों का आज अनुमोदन किया है.

वित्तीय वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही की मुख्य बिन्दुएं

1. सशक्त वित्तीय कार्यनिष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही के दौरान बैंक के परिचालन लाभ एवं शुद्ध लाभ में वर्ष दर वर्ष क्रमशः 31.45% एवं 254.93% का सुधार हुआ है. वित्तीय वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही के दौरान बैंक के शुद्ध ब्याज आय में वर्ष दर वर्ष 9.53% की वृद्धि हुई है.

2. बैंक ने सशक्त देयता अंश दर्शाना जारी रखा है

कासा जमाराशि में वर्ष दर वर्ष 11.23% की बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही के अंत तक अब हमारे पास कुल जमाराशि आधार ₹ 9,08,528 करोड़ है. कासा अनुपात में वर्ष दर वर्ष आधार पर 33.30% से 36.39% सुधार हुआ है.

3. रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) क्षेत्र के ऋण में वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.92% की वृद्धि

बैंक ने वर्ष दर वर्ष आधार पर रिटेल में 10.61%, कृषि में 12.70%, एमएसएमई अग्रिमों में 3.33% की वृद्धि दर्ज की है. घरेलू अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में रैम अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 56.08% में 451 बीपीएस का सुधार हुआ है.

4. एनपीए में कमी:-

दिनांक 30.06.2021 तक सकल एनपीए (%) में वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.60% में 135 बीपीएस की कमी दर्ज की गई है एवं शुद्ध एनपीए (%) में वर्ष दर वर्ष आधार पर 4.69% में 28 बीपीएस की कमी दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही में ऋण लागत में तिमाही दर तिमाही में 135 बीपीएस की कमी दर्ज की गई है.

5. बैंक के लागत से आय अनुपात में वर्ष दर वर्ष आधार पर 320 बीपीएस का सुधार

वित्तीय वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में बैंक के लागत से आय अनुपात के वर्ष दर वर्ष आधार पर 48.71% में 320 बीपीएस सुधार के साथ वित्तीय वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही के दौरान 46.51% रहा.

6. पूंजी अनुपात सुधार

सीआरएआर 30.06.2020 को 11.62% में सुधार के साथ 30.06.2021 को 13.32% रहा. सीईटी 1 अनुपात 30.06.2020 को 8.40% में सुधार के साथ 30.06.2021 को 9.77% रहा.

वित्तीय वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही की मुख्य बिन्दुएं

₹ करोड़ में	वित्त वर्ष 21 की प्रथम तिमाही	वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही	वित्त वर्ष 22 की प्रथम तिमाही	वर्ष दर वर्ष %	तिमाही दर तिमाही %
लाभ एवं हानि					
ब्याज आय	18,429	15,475	17,134	-7.02	10.72
ब्याज व्यय	12,026	10,072	10,121	-15.84	0.48
शुद्ध ब्याज आय	6,403	5,403	7,013	9.53	29.81
गैर-ब्याज आय	1,462	4,551	2,901	98.35	-36.26
एनआईएम%	2.78	2.38	3.08	30 बीपीएस	70 बीपीएस
परिचालन लाभ	4,034	5,180	5,303	31.45	2.37
कुल प्रावधान	3,701	3,850	4,122	11.36	7.06
कर के पश्चात लाभ	333	1,330	1,181	254.93	-11.19

₹ करोड़ में	जून 20	मार्च 21	जून 21	वर्ष दर वर्ष %	तिमाही दर तिमाही %
तुलन पत्र					
वैश्विक अग्रिम	6,50,127	6,53,684	6,45,091	-0.77	-1.31
घरेलू अग्रिम	6,29,242	6,37,672	6,30,237	0.16	-1.17
जिसमें से रिटेल	1,13,414	1,25,427	1,25,445	10.61	0.01
कृषि	1,05,439	1,20,124	1,18,825	12.70	-1.08
एमएसएमई	1,05,640	1,13,250	1,09,157	3.33	-3.61
रैम अग्रिम	3,24,493	3,58,801	3,53,427	8.92	-1.50
जमा राशि	8,92,542	9,23,805	9,08,528	1.79	-1.65
जिसमें से कासा	2,97,217	3,35,592	3,30,604	11.23	-1.49
रिटेल मियादी जमा (<2 करोड़)	3,70,732	3,86,461	4,01,020	8.17	3.77
कासा अनुपात (%)	33.30	36.33	36.39	309 बीपीएस	6 बीपीएस
जीएनपीए	97,190	89,788	87,762	-9.70	-2.26
एनएनपीए	28,914	27,281	27,438	-5.10	0.58

अनुपात (%)	वित्त वर्ष 21 की प्रथम तिमाही	वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही	वित्त वर्ष 22 की प्रथम तिमाही	वर्ष दर वर्ष बीपीएस	तिमाही दर तिमाही बीपीएस
आस्ति गुणवत्ता					
जीएनपीए	14.95	13.74	13.60	-135	-14
एनएनपीए	4.97	4.62	4.69	-28	7
पीसीआर	79.87	81.27	81.43	156	16
टीपीसीआर	70.25	69.62	68.74	-151	62

कॉर्पोरेट संप्रेषण प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021.

क्रेडिट लागत	1.49	2.89	1.54	5	-135
पूँजी अनुपात					
सीईटी-1 अनुपात	8.40	9.07	9.77	137	70
टियर-1 अनुपात	9.48	10.35	11.09	161	74
सीआरएआर	11.62	12.56	13.32	170	76

नेटवर्क:

- 📍 9312 शाखाएँ
- 📍 11824 एटीएम
- 📍 8216 बीसी पॉइंट्स
- 📍 94 सरल/सरल लाइट (एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण केंद्र)
- 📍 129 यूएलपी (रिटेल ऋण प्रसंस्करण केंद्र)
- 📍 62 यूएसके (कृषि ऋण प्रसंस्करण केंद्र)

वित्तीय समावेशन योजनाएं:

सरकार समर्थित योजनाएं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेडीवाई और एपीवाई के माध्यम से वित्तीय समावेशन का उद्देश्य बाधाओं को खत्म करना और समाज के कम पहुँच वाले वर्गों को आर्थिक मूल्य वाली वित्तीय सेवाओं को प्रदान करना है।

📍 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

पीएमजेजेबीवाई एक सरकार समर्थित बीमा योजना है जिसमें 30 जून, 2021 की समाप्त तिमाही में बैंक द्वारा 0.96 लाख नए नामांकन किए गए हैं।

📍 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):

पीएमएसबीवाई एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें 30 जून, 2021 की समाप्त तिमाही में बैंक द्वारा 1.45 लाख नए नामांकन किए गए हैं।

📍 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

इस योजना के तहत, 30 जून, 2020 को ₹5,767 करोड़ की राशि के 1.90 करोड़ खातों के सापेक्ष 30 जून, 2021 तक ₹ 6,597 करोड़ राशि के कुल 2.21 करोड़ खाते खोले गए हैं।

📍 अटल पेंशन योजना (एपीवाई):

एपीवाई एक पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर लक्षित है, 30 जून, 2021 की समाप्त तिमाही में बैंक द्वारा 0.48 लाख नए नामांकन किए गए हैं।

कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई नई योजनाएं:

कोविड-19 की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए, बैंक ने दबाव/तनाव को कम करने या उपभोगताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापारिक संस्थाओं, रिटेल ग्राहकों के लिए अनेक मुख्य योजनाओं की शुरुआत की है।

📍 पीएम स्वनिधि:



यह एक सूक्ष्म ऋण सुविधा है जो स्ट्रीट वेंडरों को एक वर्ष की अवधि के लिए कम ब्याज दरों पर ₹ 10,000 का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है.

मंजूर किए गए ऋणों की संख्या - 2,87,506

मंजूर की गई कुल राशि - ₹ 287 करोड़

यूनियन गारंटीकृत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (यूजीईसीएल):

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई उधारकर्ता/व्यक्तिगत, जिसमें इच्छुक पीएमएमवाई उधारकर्ता शामिल हैं, के लिए एक विशेष योजना जो कि 29 फरवरी, 2020 को बकाया ऋण राशि की 20/40 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण सुविधा के रूप में पूर्व-अनुमोदित मंजूरी सीमा होगी.

मंजूर किए गए ऋणों की संख्या (यूजीईसीएल 1, 2 एवं 3) - 3,72,983

मंजूर की गई कुल राशि (यूजीईसीएल 1 2 एवं 3) - ₹ 10,007 करोड़

वहन योग्य हाउसिंग योजना:

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई):

इस योजना के तहत, बैंक ने 30 जून, 2021 तक 7,891 महिला लाभार्थियों सहित 21,989 लाभार्थियों को ₹ 6,563 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है.

दिनांक: 29 जुलाई, 2021

स्थान: मुंबई

Press Release

Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

The Board of Directors of Union Bank of India today approved the accounts of the Bank for the Quarter ended June 30, 2021.

Key Highlights in Q1FY22

1. Strong Financial Performance:

Operating Profit and Net Profit of the Bank improved by 31.45% and 254.93% respectively on YoY basis during Q1FY22. Net interest income of Bank grew by 9.53% on YoY basis during Q1FY22.

2. Bank continues to demonstrate a strong liability franchise

The CASA deposits have increased by 11.23% YoY. We now have a total deposits base at Rs.9,08,528 Crores as at the end of Q1FY22. CASA ratio improved to 36.39% from 33.30% on YoY basis.

3. Credit in Retail, Agri and MSME (RAM) segments grown by 8.92% on YoY basis

Bank registered 10.61% growth in Retail, 12.70% growth in Agriculture and 3.33% growth in MSME advances on YoY basis. RAM advances as % of Domestic Advances improved by 451 bps on YoY basis to 56.08%.

4. Reduction in NPA:-

Gross NPA (%) reduced by 135 bps on YoY basis to 13.60% and Net NPA(%) reduced by 28 bps on YoY basis to 4.69% as on 30.06.2021. Credit Cost reduced by 135 bps QoQ for Q1FY22.

5. Cost to Income ratio of the Bank improved by 320 bps on YoY basis

Cost to Income ratio of the Bank improved by 320 bps on YoY basis from 48.71% during Q1FY21 to 46.51% during Q1FY22.

6. Improved capital ratios

CRAR improved from 11.62% as on 30.06.2020 to 13.32% as on 30.06.2021. CET1 ratio improved to 9.77% as on 30.06.2021 from 8.40% as on 30.06.2020.

Key Summary of Q1FY2022 Results

In Rs Crores	Q1FY21	Q4FY21	Q1FY22	YoY%	QoQ%
Profit & Loss					
Interest Income	18,429	15,475	17,134	-7.02	10.72
Interest Expenses	12,026	10,072	10,121	-15.84	0.48
Net Interest Income	6,403	5,403	7,013	9.53	29.81
Non-Interest Income	1,462	4,551	2,901	98.35	-36.26
NIM %	2.78	2.38	3.08	30 bps	70 bps
Operating Profit	4,034	5,180	5,303	31.45	2.37
Total Provisions	3,701	3,850	4,122	11.36	7.06
Profit After Tax	333	1,330	1,181	254.93	-11.19



In Rs Crores	Jun 20	Mar 21	Jun 21	YoY%	QoQ%
Balance Sheet					
Global Advances	6,50,127	6,53,684	6,45,091	-0.77	-1.31
Domestic Advances	6,29,242	6,37,672	6,30,237	0.16	-1.17
W/w Retail	1,13,414	1,25,427	1,25,445	10.61	0.01
Agriculture	1,05,439	1,20,124	1,18,825	12.70	-1.08
MSME	1,05,640	1,13,250	1,09,157	3.33	-3.61
RAM advances	3,24,493	3,58,801	3,53,427	8.92	-1.50
Deposits	8,92,542	9,23,805	9,08,528	1.79	-1.65
W/w CASA	2,97,217	3,35,592	3,30,604	11.23	-1.49
Retail Term Deposits(<2 Crs)	3,70,732	3,86,461	4,01,020	8.17	3.77
CASA Ratio (%)	33.30	36.33	36.39	309 bps	6 bps
GNPA	97,190	89,788	87,762	-9.70	-2.26
NNPA	28,914	27,281	27,438	-5.10	0.58

Ratios (%)	Q1FY21	Q4FY21	Q1FY22	YoY bps	QoQ Bps
Asset Quality					
GNPA	14.95	13.74	13.60	-135	-14
NNPA	4.97	4.62	4.69	-28	7
PCR	79.87	81.27	81.43	156	16
TPCR	70.25	69.62	68.74	-151	62
Credit Cost	1.49	2.89	1.54	5	-135
Capital Ratios					
CET-1 ratio	8.40	9.07	9.77	137	70
Tier-1 ratio	9.48	10.35	11.09	161	74
CAR	11.62	12.56	13.32	170	76

Network:

-  9312 Branches
-  11824 ATMs
-  8216 BC points
-  94 SARAL/SARAL Lite (MSME Loan Processing Centres)
-  129 ULPs (Retail Loan Processing Centres)
-  62 USKs (Agricultural Loan Processing Centres)

Financial inclusion schemes:

Financial inclusion aims to eliminate barriers and provide economically priced financial services to the less accessible sections of the society through government-backed schemes like PMJJBY, PMSBY, PMJDY and APY.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY):

PMJJBY is a Government- backed insurance scheme; 0.96 lakh new enrollments were done by Bank for the quarter ended June 30, 2021.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):

PMSBY is Government- backed accidental insurance scheme; 1.45 lakh new enrollments were done by Bank for the quarter ended June 30, 2021

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

Under this scheme, as on June 30, 2021, total 2.21 Crore accounts have been opened with account balance of Rs.6,597 Crore as against 1.90 Crore accounts with Rs.5,767 Crore as on June 30, 2020.



Atal Pension Yojana (APY):

APY is a pension scheme, primarily targeted at the unorganized sector, 0.48lakh new enrollments were done by Bank for the quarter ended June 30, 2021.

New schemes launched to tackle COVID-19:

In response to significant challenges of COVID 19, Bank has launched various flagship schemes for business entities, retail customers, in order to ease out the stress or for fulfilling the consumption needs.

PM SVANidhi:

A micro credit facility that provides street vendors a collateral free loan of Rs.10,000 with low rates of interest for a period of one year.

No. of Loans Sanctioned -2,87,506

Total amount Sanctioned - Rs.287 Crore

Union Guaranteed Emergency Credit Line (UGECL):

A special scheme as per Gol guidelines for sanctioning pre-approved limit of up to 20/40 per cent of loan outstanding as on 29th February, 2020 to eligible borrowers, in the form of additional working capital term loan facility to eligible Business Enterprises / MSME borrowers/Individuals, including interested PMMY borrowers.

No. of Loans Sanctioned (UGECL 1,2 &3) -3,72,983

Total amount Sanctioned (UGECL 1,2 &3)- Rs.10,007 Crore

Affordable Housing Scheme:

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY):

Under this scheme, as on June 30, 2021, Bank has sanctioned an amount of Rs.6,563 Crores to 21,989 beneficiaries including women beneficiaries of 7,891.

Date: 29th July, 2021

Place: Mumbai